

## प्रेस नोट दिनांक 04-10-2020

अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन एवं श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 03-10-2020 को पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही ।

दिनांक 03-10-2020 को जनपद सिद्धार्थनगर के सभी थाना क्षेत्रों में वाहन /अवैध शराब/ संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया । जिसके अन्तर्गत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष द्वारा एम0वी0 एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये 81 वाहनों से 66,400/ रु0 समन शुल्क वसूल किया गया ।

- 01-** थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त राजू उर्फ खजान यादव पुत्र स्व0 राम मिलन सा0 घोरई उर्फ रोनिहवा थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 90 शीशी अवैध नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 272/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।
- 02-** थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त सन्तोष पाल पुत्र राजू पाल सा0 घोरई उर्फ रोनिहवा थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 50 शीशी अवैध नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 273/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।
- 03-** थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त रकीब पुत्र सरदार हुसैन सा0 नीबीदोहनी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 15 शीशी अवैध नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 253/2020 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है

प्रेस नोट दिनांक 04.10.2020

शांति भंग की आशंका में एक व्यक्ति गिरफ्तार ।

श्री महेन्द्र चौहान, थानाध्यक्ष थाना पथरा बाजार के नेतृत्व में आज दिनांक 04.10.2020 को एनसीआर व अन्य संज्ञेय अपराधों को घटित होने से रोकने एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 151/107/116 सीआरपीसी के अन्तर्गत 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

प्रेस नोट दिनांक 04.10.2020

शांति भंग की आशंका में 02 व्यक्ति गिरफ्तार ।

श्री शमशेर बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना गोलहौरा के नेतृत्व में आज दिनांक 04/10/2020 को शांति भंग व संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के लिए 02 अभियुक्तों को धारा 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार करना माननीय न्यायालय भेजा गया ।

## प्रेस नोट दिनांक:- 04.10.2020

### थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 01 अपहृता को बरामद किया गया ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के अनुपालन में तथा श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री राजेश कुमार तिवारी, क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल निर्देशन व श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव थानाध्यक्ष थाना जोगिया उदयपुर के नेतृत्व में आज दिनांक 04.10.2020 को मु0अ0सं0-103/2020 धारा 366/506 आईपीसी थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर से संबंधित अपहृता को उपनिरीक्षक श्री शंकर प्रसाद जयसवाल व म0हे0कां0 सविता राय द्वारा ग्राम मसिना के सामने बांसी नौगढ़ सड़क पुलिया के पास बरामद किया गया ।

### बरामद करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.उ0नि0 शंकर प्रसाद जायसवाल
- 2.म0हे0कां0 सविता राय

## प्रेस नोट दिनांक 04.10.2020

### आज दिनांक 04.10.2020 को महिला थाने पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 05 परिवारों को बिखरने से बचाया गया ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 04.10.2020 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र /नई किरण का आयोजन किया गया । इस आयोजन में कुल 20 पत्रावलीयां विचारार्थ प्रस्तुत हुई । जिसमें से 15 पत्रावलिओं में दोनों पक्ष उपस्थित हुए परामर्शन के बाद 05 पत्रावलियों का सफल निस्तारण संभव हुआ । परामर्श में मुख्य परामर्शदाता श्री चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव व श्री समसुलहक का सराहनीय योगदान रहा । निस्तारण में प्रभारी महिला थाना पूनम मौर्या व महिला मुख्य आरक्षी सरोजमाला, व महिला आरक्षी कंचन सिंह, आरक्षी श्वेता राय व महिला आरक्षी निधि सिंह का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

### निस्तारित पत्रावली का विवरण-

- 1-श्रीमती उर्मिला पत्नी शिवशंकर निवासी ग्राम सोनफेरवा खुर्द थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 2- श्रीमती सरिता पत्नी जितेन्द्र बहादुर निवासी डुमरियागंज तेलियाना थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 3- श्रीमती सोनम पत्नी भइया लाल यादव निवासी भडही थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 4- श्रीमती साहिना खातून पत्नी मो. राशिद निवासी ग्राम खजुरिया थाना सि.न. जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 5- श्रीमती जन्बुल निशा पत्नी जुम्मन निवासी श्याम नगर थाना बासी जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक 04.10.2020

## हत्या के अभियोग में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री राणा महेंद्र सिंह, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में दिनांक 04.10.2020 को समय 15:10 बजे श्री रामअशीष यादव, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ के नेतृत्व में थाना शोहरतगढ़ पर पंजीकृत मु.अ.सं. 247/20 धारा 302,201 भा.द.वि. से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. प्रेम यादव उर्फ छोटू पुत्र गोरख यादव 2. गुड़िया पुत्री स्व० राम उजागिर निवासीगण बोहली थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार मा. न्यायालय भेजा गया ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. प्रेम यादव उर्फ छोटू पुत्र गोरख यादव सा. बोहली थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. गुड़िया पुत्री स्व० राम उजागिर सा. बोहली थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।

### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. प्र.नि. श्री राम अशीष यादव प्रभारी निरीक्षक थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. हे का. कृष्ण प्रताप त्रिपाठी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।
3. का. सुनील कुमार शाह थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 4- म.का. कुमारी वन्दना थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।

### घटना का संछिप्त विवरण-

अभियुक्तों द्वारा दीपक दुबे पुत्र दुखहरन निवासी ग्राम बोहली थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर की डूबा कर हत्या कर लाश को तालाब में छिपा दिया गया था ।

प्रेस नोट दिनांक 04.10.2020

## शांति भंग की आशंका में 13 व्यक्ति गिरफ्तार ।

आज दिनांक 04.10.2020 को श्री रामअशीष यादव, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ के नेतृत्व में उ.नि. अजयनाथ कन्नौजिया, उ.नि. रमाशंकर राय मय टीम द्वारा शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले 13 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में समय करीब 13.00 बजे गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में माननीय न्यायालय भेजा गया ।

प्रेस नोट दिनांक 04.10.2020

आज दिनांक 04.10.2020 को कोतवाली इटवा सिद्धार्थनगर में आगामी दुर्गा-पूजा, दशहरा, रामलीला, चेहल्लुम का त्यौहार सकुशल व शांतिपूर्वक मनाने हेतु पीस कमेटी की मीटिंग उप जिलाधिकारी इटवा क्षेत्राधिकारी इटवा प्रभारी निरीक्षक इटवा एवं थाना क्षेत्र के संभ्रांत गणमान्य व्यक्ति वह हिंदू मुस्लिम समुदायों के लोग उपस्थित थे मीटिंग में शासन के आदेश निर्देश के तहत त्यौहार शांति पूर्वक सकुशल मनाने हेतु बताया गया और पालन करने हेतु प्रशासन के साथ मिलकर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपील की गई।

प्रेस नोट दिनांक 04.10.2020

आगामी त्यौहारों/कोविड-19 के दृष्टिगत पीस कमेटी की मीटिंग थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "आगामी त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने" के दृष्टिगत दिये गये निर्देश के क्रम में आज दिनांक 04 अक्टूबर 2020 को क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज श्री उमेश शर्मा की अध्यक्षता में व श्री रविंद्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना भवानीगंज की मौजूदगी में आगामी त्यौहारों/कोविड-19 के संबंध में थाना क्षेत्र के एस – 10 व ग्राम प्रधान व पूर्व प्रधान व बीडीसी तथा आगामी तथा समस्त पत्रकार तथा धर्मगुरुओ व ग्राम प्रहरियों के साथ मीटिंग की गयी।

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "आगामी त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने" के दृष्टिगत दिये गये निर्देश के क्रम में आज दिनांक 04 अक्टूबर 2020 को श्री उमेश शर्मा, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज की अध्यक्षता में व श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना भवानीगंज की मौजूदगी में आगामी त्यौहारों/कोविड-19 के संबंध में थाना क्षेत्र के सभी एस – 10 व डीजिटल वालेटियर तथा ग्राम प्रधान व पूर्व ग्राम प्रधान तथा बीडीसी व पूर्व बीडीसी व पत्रकार व धर्मगुरुओ तथा ग्राम प्रहरियों की मीटिंग की गई तथा सभी को अवगत कराते हुए आगामी त्यौहारों दुर्गा पूजा / चेहल्लुम को दृष्टिगत रखते हुए "माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अपने अपने घरों में मनाए जाने" के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। तथा सभी ग्राम प्रहरियों को उनके दायित्वों/ कर्तव्यों से अवगत कराते हुए आगामी त्यौहारों दुर्गा पूजा / चेहल्लुम को "माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अपने अपने घरों में मनाए जाने" के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।